

Dated: 18th August, 2021

To

Manager

Listing Department/ Department of Corporate Relations

BSE Limited6

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,

Mumbai- 400001

Scrip Code: 533344

General Manager

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, C-1, Block G,

Bandra- Kurla Complex, Bandra (East),

Mumbai-51

Scrip Code: PFS

Sub: News Paper Advertisement for Intimation of 15th Annual General Meeting

Sir/Madam,

Please find attached the copy of the relevant pages of the newspapers of 18th August, 2021 in which the intimation of 15th Annual General Meeting of the Company to be held on Friday 24th September, 2021 are published.

Thanking You,

For PTC India Financial Services Limited

Yishal Goyal

(Company Secretary)

Enclosed: as above

PTC India Financial Services Ltd. (CIN: L65999DL2006PLC153373)

(A subsidiary of PTC India Limited)

Registered Office: 7th Floor, Telephone Exchange Building, 8 Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066, India Board: +91 11 26737300 / 26737400 Fax: 26737373 / 26737374, Website: www. ptcfinancial.com, E-mail: info@ptcfinancial.com

SII buys 50% in vial maker

Deal will help Serum Institute gain more control over its vaccine supply chain

Mumbai, 17 August

erum Institute of India (SII) has bought a 50 per cent stake in drug vial maker Schott Kaisha from its co-owners. Kairus Dadachanji and Shapoor Mistry, for an undisclosed sum.

Schott Kaisha, a joint venture between Germany's specialty glass company Schott AG and India's Kaisha group, is a leading manufacturer of pharmaceutical packaging products such as vials, syringes, ampoules and cartridges.

While the deal will help SII to have more control over its supply chain (glass vials being a critical component of vaccine packaging), it will allow Kaisha to focus on its other pharmaceutical ventures.

Adar Poonawalla, CEO, SII, said, "Even the best medication can't reach the patient without the right packaging. Securing this supply chain is of strategic importance. Schott is the perfect partner for us to do this because of its expertise and global network." "As a long-

The pace of approvals for abbreviated new

drug applications (ANDAs) by the US drug

Covid levels, revealed the latest data from

Administration (USFDA) in the first half

(H1) of calendar year 2019, the number of

by Indian pharmaceutical (pharma) firms

have fallen from 267 in H12019 (calendar) to

137 in H12021 (calendar) - a 49-per cent drop.

approvals has, however, remained stable at

Physical facility inspections were not

undertaken, and prioritisation of product

approvals was based on requirement,

No:-Prodn.-02/NSC:KOL/2021-22

Name of the corporate debtor

India's share in the global ANDA

around 40-42 per cent.

approvals has halved to 328 in H12021

Compared to 670 global ANDA approvals

Within this, the ANDA approvals secured

regulator has halved, compared to pre-

India Ratings & Research (Ind-Ra).

given by the US Food and Drug

Mumbai, 17 August.

(calendar).



BIZ BOOST

- Schott is a German specialty glass company
- It had a 50:50 JV with Kaisha Group in India since 2008
- Schott Kaisha invested ₹600 crore in last 3 years to build capacity

secured control of

supplies Kaisha promoters now plan to focus Serum Institute has on their other

packaging material

pharma businesses

time customer, we use Schott Kaisha's vials, ampoules, and syringes to store our vaccines,

including Covishield." Sources in the know said Dadachanji and Mistry would now focus on bringing in new pharmaceutical products - both drugs and drug delivery systems - to the front end of the market. Kaisha group companies such as Sovereign Pharma are contract manufacturers

and make drugs like remdesivir for

firms like Cipla. Dadachanji, managing director of the Kaisha group, said the group would expand its "horizon" to cater to the front of the pharmaceutical value chain. "We want to work more closely with the medical community, and channelise our strengths by bringing ease of drug administration to healthcare workers and highly effective medication for our

end consumers," he said. "My son, Rishad, and I will remain in close contact with the industry through our other businesses, namely Sovereign Pharma, Lifesciences, Kaisha Packaging, Kairish Innotech, and Packwell

Schott AG, owned by Carl Zeiss Foundation, clocked a turnover of 2.2 billion euros in the fiscal year 2020. The 130-year-old company has presence in 34 countries and, thus, presents a good opportunity for SII to tap the high-demand market of glass packaging of pharma products.

Frank Heinricht, CEO, Schott, said, "We are looking forward to strong impulses from this partnership. It is an excellent example of shifting towards new cooperation models, with greater synergies between pharma manufacturing

and packaging production." The joint venture will definitely continue to supply its customers in India and abroad, said Eric L'Heureux, the new MD and former longstanding head of operations.

JSW Infra plans capex of₹10kcr

JSW Infrastructure has planned a capex of ₹10,000 crore by 2025 and this will include investments in logistics.

Logistics investment is a natural progression in the port business to strengthen hinterland connectivity.

We have been accessing opportunities in rail connectivity since the last 6-8 months. We could invest in rakes in the last mile but it continues to be a huge challenge. This would be for both our west as well as east coast operations," Arun Maheshwari, joint managing director (joint MD) and chief executive officer (CEO) at JSW Infrastructure told Business

The unlisted company competes with private port players such as Adani Ports, APM Terminals and DP World in the Indian market. Through this rail connectivity, we are planning to have dedicated rakes, or leased rakes to see volumes increase for us as hinterland connectivity will improve," said Maheshwari. Part of the JSW Group, JSW Infrastructure

currently has a capacity of 120 million tonnes with its third-party cargo growing over the last

representing big pharma players in India-

The industry concurs. "In the past one

delays in USFDA approvals, especially those

agencies from other countries (regulators),

which did not insist on facility inspections.

did virtual audits or went with the earlier

audit results. The approvals have, in fact,

come down during the pandemic," said

Arun Chandavarkar, managing director,

admitted to USFDA audits having gone

and a half years, there have been some

related to facility inspections. Many

Indian Pharmaceutical Alliance

down during the pandemic.

ADITI DIVEKAR

Tailended batsmen! Lords and lords of taste!

Flipkart will open 4 centres in Maha, create 4,000 jobs

PEERZADA ABRAR

Bengaluru, 17 August

E-commerce giant Flipkart on Tuesday said it will open four new fulfilment and sortation centres in Maharashtra, creating 4,000 direct and indirect

The facilities, located in Bhiwandi and Nagpur, will be collectively spread across nearly 700,000 square feet (sq. ft). Apart from growing customer demand, the expansion comes on the back of a growing seller count from the state, which rose 30 per cent in the last year.

"As a homegrown e-commerce company, we are continuously making deep investment in infrastructure and supply-chain in Maharashtra to support a robust ecosystem for local MSMEs, artisans, weavers and other underserved communities," said Rajneesh Kumar, chief corporate affairs officer at Flipkart.

A fulfilment centre is a warehouse where orders are received, processed and filled,



back of a growing seller count in the state

while a sortation centre is a facility where shipments are picked according to pin codes. Walmart-owned Flipkart has over 70 of these across the country, spread over 10 million sq. ft.

The expansion would help Flipkart compete with Amazon, Reliance's JioMart, and Tata-owned BigBasket.

Amazon India recently announced plans to expand its fulfillment network, with a nearly 40 per cent increase in its storage capacity over the last year. With this, Amazon will have more than 43 million cubic feet of storage capacity

USFDA approvals for Indian firms halve in 2021

pointed out analysts at Ind-Ra. They added that there were fewer fresh approvals than the pre-Covid levels witnessed by Indian companies in H12021 (calendar).

"Due to lack of new approvals, Indian companies tried to push the existing basket of products, leading to a downward trend in

INDIA'S SHARE REMAINS STABLE



pricing," said analysts.

The first quarter of 2021-22 has seen strong price erosion in the US market. Most

Sudarshan Jain, secretary general,

PTC India Financial Services Limited



NOTICE OF 15TH ANNUAL GENERAL MEETING OF PTC INDIA FINANCIAL SERVICES LIMITED THROUGH VIDEO-CONFERENCING

Notice is hereby given that, the 15th Annual General Meeting ("AGM") of the members of PTC India Financial Services Limited ("PFS" or "the Company") will be held on Friday, 24th September, 2021 at 11:00 a.m. through video conference ("VC"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") and rules notified thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with read with general circulars nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April 2020, 13th April 2020 and 5th May 2020 and clarification circular no 02/2021 dated 13th January, 2021, respectively and other issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/70 dated May 12, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2021/11 dated January 2021 (collectively referred to as "Relevant Circulars"), to transact the businesses as set out in the Notice of AGM.

The members can attend and participate in the AGM through VC as the AGM will be held without the physical presence of the Members at a common venue. Members participating through VC shall be counted for reckoning the quorum under section 103 of the Act.

In compliance with MCA & SEBI circular (s), the electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year ended 31st March, 2021 of the Company will be sent to all the members whose e-mail address is registered with the Company/RTA/Depository Participants as on 27th August 2021. Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice of the 15th AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide above referred Relevant Circulars. The Notice and the Annual Report will also be available on the website of the Company www.ptcfinancial.com and on the website(s) of the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com respectively, where the Company's shares

The VC facility and the facility of casting the votes by the members ("e-voting") will be provided by Kfin Technologies Private Limited ("Kfintech"), Registrar & Share Transfer Agent ("RTA") of the Company and the detailed procedure for the same shall be provided in the Notice of the AGM. The Notice of the AGM will also be made available on the website of Kfintech at https://evoting.kfintech.com. The remote e-voting period commences on 21st September, 2021 (09:00 A.M.) and will end on 23rd September, 2021 (05:00 P.M.). Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date of 17th September, 2021, may cast their vote by remote e-voting or by e-voting at the time of AGM.

Members holding shares in physical form who have not registered their e-mail addresses with the Company are requested to register the same by following the procedure specified in the Notice, i.e. either by registering through the link: https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx; or by writing to KFin Technologies Private Limited, Company's RTA, at einward.ris@kfintech.com-along with the following documents:

- a) scanned copy of signed request letter mentioning their name and address;
- b) scanned copy of the share certificate (front and back); self-attested scanned copy of PAN card; and
- self-attested scanned copy of any document (viz. Aadhar card, Driving License, Passport) in support of their Members holding shares in dematerialized form are requested to register/ update their e-mail addresses with their

relevant DPs. For the limited purpose of receiving the Notice and Integrated Report for the financial year 2020-2021, they may also temporarily register their e-mail addresses by following the procedure specified in the Notice i.e. by registering through

the link: https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for

joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting and through e-voting during the AGM.

The Notice of AGM and Annual Report for financial year 2020-21 will be sent to members in accordance with the applicable laws on their registered email addresses in due course.

For PTC India Financial Services Ltd.

Date: 17th August, 2021 Place: New Delhi

(Vishal Goyal) Company Secretary

(CIN: L65999DL2006PLC153373)

Registered Office: 7th Floor, Telephone Exchange Building, 8 Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066 Board: +91 11 26737300 / 26737400 Fax: 26737373 / 26737374, Website: www. ptcfinancial.com, E-mail: info@ptcfinancial.com

GAIL (India) Limited

NOTICE TO SHAREHOLDERS OF GAIL (INDIA) LIMITED

Notice is hereby given that the 37" (Thirty Seventh) Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Thursday, the 09th day of September, 2021 at 11:30 a.m. through Video Conferencing Mode (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act 2013 and the Rules made thereunder, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Relevant Provisions) read with MCA General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 (MCA Circulars) and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMDI/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/602 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD1/P/CIR/2021/602 dated July 23, 2021 (SEBI Circulars) prescribing the procedures and manner of conducting the Annual General

Financial Year 2020-21, has been sent to the Members of the Company through electronic mode whose e-mail ID(s) are registered with the Depository Participant (DP) or R&TA. The same is also hosted on the website(s) of the Company (www.gailonline.com). Stock Exchanges i.e. BSE Limited www.bseindia.com. National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) (www.evotingindia.com).

Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is pleased to provide to its members facility to exercise their right to vote on all resolutions set forth in the Notice convening the 37th Annual General Meeting using electronic voting system (Remote e-voting). The Company has engaged the services of Depository viz Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide the remote e-voting facility. The remote e-voting period commences on Sunday, 05" September, 2021 (9:00 am) (IST) and ends on Wednesday, 08" September, 2021 (5:00 pm) (IST). The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and shall not be allowed beyond said date and time.

Owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Thursday, 2" September, 2021 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or for participation at the AGM or vote through e-Voting system

The members who have casted their vote by remote e-voting may also attend the AGM through VC/ DAVM but shall not be entitled to cast their vote again. Once a vote on a resolution is submitted by the member through evoting, the member shall not be allowed to change it. The remote e-voting facility is available at the link https://www.evotingindia.com. Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.

any queries or issues regarding attending AGM & E-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 and 022-23058542/43. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Shri Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25" Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43. Alternatively, the members may contact our R&TA at admin@mcsregistrars.com or Mr. Ajay Dalal, General Manager, MCS STA at 91-11-41406149-52 Address: MCS Share Transfer Agent Limited, Unit: GAIL (India) Limited, 1st Floor, F-65, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-1100201.

Notice has been sent electronically by the Company and holds share as on cut-off date may obtain the login id and password by sending request along with their shareholding details to shareholders@gail.co.in or helpdesk.evoting@cdslindia.com

To enable the Company to better serve its members it is requested that those members willing to avail the National Automated Clearing House (NACH) facility i.e. direct credit of dividend amount in the bank account. Members are requested to update bank details with their Depository (DP) (if shares are held in electronic mode) or R&TA/Company (if shares are held in physical mode).

Further, in case of shareholders who are holding shares in physical form are requested to dematerialize their physical shareholdings. No request for transfer of shares in physical form (except in case of transmission or transposition of securities) can be processed by the Company/R&TA in view of SEBI circular no. SEBI/HO/MIRSD/RTAMB/CIR/P/2020/236datedDecember 2, 2020.

Member(s) who have not yet encashed their Dividend Warrant(s) may approach the R&TA/Company for issuance of demand draft(s) upon completion of necessary formalities, at least 3 weeks before the due date for transfer to IEPF. Member(s) may visit 'Investor Zone' section at Company's website for further reference. To facilitate the member(s) to register their request/complaint, if any, designated e-mail ID of the R&TA and Company is admin@mcsregistrars.com or shareholders@gail.co.in.

In terms of Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is providing one-way live webcast of the proceedings of the Annual General Meetings for the shareholders on 9th September, 2021 from 11.30 a.m. onwards till conclusion of the AGM. You may access the same at GAIL's website (www.gailonline.com).

Place: New Delhi Date: 18.08.2021

Fax: 011-26185941


E-mail: shareholders@gail.co.in Phone: 011-26182955

CIN: L40200DL1984G0I018976 www.gailonline.com | Regd. Off.: 16, Bhikaiji Cama Place, R.K. Puram, New Delhi - 110066.

For GAIL (India) Limited (A.K. Jha) Company Secretary Follow us on 🕜 📆 🔘

Place: Mumbai





1500 Qtls.) and Sunflower (400 Qtls). details, visit NSC's website www.indiaseeds.com under Public Notice (Tender/Quotations). Online Bids for above tender must be submitted

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD. (A Govt. of India Undertaking- Mini Ratna Company) CIN No.- U74899DL1963PLC003913

separately at NSC e-Portal: https://indiaseeds.eproc.in latest by 14:30 Hrs. of 31.08.2021. Corrigendum/addendum, if any, shall only be published in NSC's website. Regional Manager NSC, Kolkata

E-TENDER NOTICE

Tender for Supply of fresh finished product of CS category of Greengram

FORM G INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

RELEVANT PARTICULARS

Diamond Power Infrastructure Limited

RO:Block-AQ, Sector-V, Plot No.-12, Salt Lake City, Kolkata-700 091 (West Bengal) Ph:033-2367-1077 • Fax:033-2367-1076 • Website: www.indiase

RoC-Ahmedabad Authority under which corporate debtor is incorporated / registered 4. Corporate identity number / limited L31300G/1992PLC018198 liability identification number of corporate debtor

5. Address of the registered office and PHASE-II, Village Vadavala, Ta. Savii, District principal office (if any) of corporate Vadodara Gujarat 391520 India. debtor Insolvency commencement date of 24.08.2018 the corporate debtor Date of invitation of expression of 18.08.2021 8. Eligibility for resolution applicants www.dicabs.com & inder section 25(2)(h) of the Code is www.insolvencyandbankruptcy.in available at: 9. Norms of ineligibility applicable under www.insolvencyandbankruptcy.in section 29A are available at: 10. Last date for receipt of expression of Interest
11. Date of issue of provisional list of 12.09.2021 prospective resolution applicants 12. Last date for submission of objections 17:09:2021

to provisional list 13. Date of issue of final list of 27.09.2021 prospective resolution applicants 14. Date of issue of information 7.09.2021 memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants 15. Manner of obtaining request for The resolution professional will share the resolution plan, evaluation matrix Request for Resolution Plan/ Evaluation Matrix information memorandum and further Information Memorandum in electronic form after verification of KYC, capacity to invest, capability to manage and eligibility under ection 29A of IBC, 2016 and pre-qualification. 16. Last date for submission of resolution

17. Manner of submitting resolution plans In electronic form to the email id mentioned to resolution professional 18. Estimated date for submission of against serial no. 21 As soon as approved by Committee of Creditors resolution plan to the Adjudicating

Authority for approval 19. Name and registration number of the Name: Mr. Prashant Jain Registration Number resolution professional IBB//PA-001/IP-P01368/2018-2019/12131 20. Name, Address and e-email of the Address: A501. Shanti Heights: Plot No. resolution professional, as registered 2.3.98/10, Sector 11, Koparkharine, Thane

Navi Mumbai, Maharashtra ,400709 Email Id: joprashantjain@gmail.com Address: AAA Insolvency Professionals LLP, 21. Address and email to be used for E-10A, Kailash Colony, Greater Kailash - 1, correspondence with the resolution New Delhi- 110048 Email Id: (pprashantjain@gmail.com,

22. Further Details are available at or with www.dicabs.com &

23. Date of publication of Form G

Mr. Prashant Jain IBBI/IPA-001/IP-P01368/2018-2019/12131

Resolution Professional In the matter of DIAMOND POWER INFRASTRUCTURE LIMITED Date: 18.08.2021



diamondpower@aaainsolvency.com

www.insolvencyandbankruptcy.in



Indian pharma majors have posted both a year-on-year and a sequential dip in US

He also clarified that there is indeed some talk of the USFDA starting virtual audits, but those could possibly start first within the US (domestic plants). Indian audits are likely to pick up in the coming months, Vinita Gupta, chief

executive officer of Lupin, said the India office of the USFDA is likely to resume site inspections soon.

Biocon Biologics.

Meeting through VC/OAVM. In line with the aforesaid Circulars, the Notice of 37" AGM and Integrated Annual Report of the Company for the

Pursuant to the Regulation 44 of the SEBI (LODR), Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the

A person whose name is registered as member in the Register of Members or in the Register of Beneficial

Members are requested to refer to instructions for remote e-voting forming part of AGM Notice. If you have

If a person is already registered with CDSL/NSDL for e-voting then existing login ID and password to be used for e-voting. Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the

MANAGING DIRECTOR

महो/

अनु. क्र.	कर्जवाता (ऑ) का नाम (ए)	गिरवी शंपति(याँ) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की नारीख (शी)	ৰকায়া বাহি (ম.) (ৱা)
1.	कर्ज खाता क. HILAPAN00462411 1. संदीप कुपार गोवल गातिक टेकनैक्स इलेक्ट्रॉनिक 2. मदन साल अप्रवास 3. समृद्ध गोवल 4. कदिता गोवल 5. निर्मल गोवल 6. बाहन ट्रेडिंग कं. 7. एस. एस. एससपोर्ट	एव. सं. का भाग 213-ए न्यू ज्वाहर नगर ज्यालंबर-144001 वंजाद	12.06.2021	रू. 3,17,70,392.67/-(रुपए तीन करोड राजह लाख सत्तर हजार तीन सौ यधानढे और सङ्ग्रह पैसे मात्र) 12.06.2021 के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाग वाला उधार लेने याला(ले) ने ऋण खाने के गितीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं नथा कंपनी द्वारा अपनी आग बिजनेस क्यों में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के अले रर्तान डी में विनिर्दिष्ट धनराशि नकाया बनी हुई है। उबार लेने वाले(लों) की ओर से ऋज धनगृष्टि का पुनर्मुगतान में लगातार चूक होने के कारण समार लेने ताले(लों) के ऋज खाते को कंपनी द्वारा

सीमांकित मापदंडों के मीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (रतंप सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने बाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है। उपर्युक्त को दुष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदहारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लॉ) का आहवान, करती है कि, वे इस चुवना के प्रकाशित होने के

दिन से 60 दिन के भीतर अधातन ब्याज, लागों, तथा शुल्कों सहित करपर रतंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण नकाया देवताओं का भूगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / जनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ भी में उल्लिखित रंधक रधी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात होगी

कृषया ध्वान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुचार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलागी द्वारा, कोटेशन आपंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्बों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देव राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मौचन करने में कर्जवार विकल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मौचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता' सरफेसी अधिनिकमन की उपधार 13(2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप 3स प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अध्यक्ष नोटिस में उल्लिखित अपनी सरकित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से

> धनी लोन्स एंड सर्विरोज लिमिटेड के लिए (पूर्व में आईवीएल फाइनेंस लिमिटेड और ईडियाबुल्स वंप्ययूपर फाइनेंस लिमिटेड) प्राधिकृत अधिकारी

स्थाल: नई दिल्ली/जालंबर

प्रतिवंधित हैं



कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001 दूरभाष: 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट: www.pnbhousing.com

शाखा कार्यालय : ए—10, प्रथम तल, जलवारा बॉयपास रोड, भगत सिंह कॉलोनी, भिवडी, राजस्थान 31019, ईमेल : bhiwadi@pnbhousing.com शाखा कार्यालय : उपहार सिनेमा कॉप्पतेक्स, प्रथम तल, बिल्डिन सं. एस–८, डीन पॉर्क एक्सटेशन, नई दिल्ली–110016, ईमेल : greenpark@pnbhosing.com शाखा कार्यालय : एस.सी. सं. ३९ १, सेक्टर–२९, अरवन एस्टेट इकको चीक मेट्रो स्टेशन के पास, गुरुशाम–12200 १, ईमेल : gurgaon@pnbhousing.com शास्त्रा कार्यालय : 36, भूतल, ब्लॉक, ईस्ट मेट्रो स्टेशन ए.सं. वी–1, जनकपुरी, दिल्ली–110058, ईमेल : janakpuri@pnbhousing.com शाखा कार्यालय : भूतल, डी-2, सेक्टर-3 नोएडा (उ.प्र.)-201301, ईमेल : noida@pnbhousing.com

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय ॥। की घारा 13(2) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित आज की दिनांक में संशोधित के तहत सूचना

हम, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (इसके बाद "पीएनबीएजएफएल" के रूप में संदर्भित) ने वित्तीय परिशंपतियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति कि प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद "अधिनियम" के सच्य में संदर्भित) के अध्याय III की धारा 13(2) के तकत समारी निल्लाका शास्त्रा कार्यालय स्थित ए—10, प्रथम तल, अलवारा यॉक्यास रोड, भगत सिंह कॉलोनी, फिकडी, राजस्थान 31019 और इसके अलावा हमारी दिल्ली शास्त्रा कार्यालय ज्वहार सिनेमा कॉम्पलेक्स रिचा , प्रथम तल, विकितंत्र सं, एस–8, ग्रीन पॉर्क एक्सटेशन, नई दिल्ली—110016, और इसके अलावा हमारी गुडगांव शास्त्रा कृत्यालय स्थित एस.सी. सं, 391, सेक्टर-29, अस्वन एस्टेट इसकी बीक मेट्रो स्टेशन के पात्र, पुरुताम-122001, और इसके अलावा हमारी जनकपूरी शास्त्र कार्यालय रिवल 36, मूलल, व्लीक, ईस्ट मेट्रो स्टेशन ए.सं. बी-1, जनकपूरी, विस्ती-110088, और इसके अलावा मीएक साव्या कार्यालय रिवल मूलल, बी-2, पंतरण-3 मोएक (व.स.)-201301 द्वारा मांग स्वाना जाते की थी उस मांग स्वाना हमारे प्राधिकृत अधिकारों के मान्यमारों का सोवे मोंगे उल्लेखित ज्यासकती, 'सह-ज्याकतों,' मारेटरों को वारों किनाई थी, वारों कि आपके खाते को विस्ता/आव वा। मुनतान न उसने के कारण माराविध दिवलों बीक /मेडनात हाजिय मेंक के डिया-निर्देखों के अनुसार मेर-निम्मादील वरिस्तिविधों के उस में वर्गीयूल विवास गया है। इसका निमम का पुरातान वे उसन के बहुए। मादाबा देखेंदे बार, नाजान हो इत्यान के का स्थान-नव्यक्ष के अनुवार गर-नाथकाद करताया के उस में वास्तान किया का इतिकास का आपके द्वार मुक्तन के किया के सुक्ता का का आपके द्वार मुक्तन के किया के सुक्ता आपके हुए के किया वार्च हुए है। इसके अताय करण, हम मान है कि आप मार सुक्ता आप करते हैं और इसकिए उक्त अधिनेशम की घारा 13(2) की मान सुक्ता का अर्थ एकाशन की भी आवश्यकरा है। एक्ट्र द्वारा आपको इस मान सुक्ता के एकाशन की दिनांक के 40 दिनों की अपक्षि के भीतर उपरक्त साथि को अब का के खादा और मुक्ता के साथ, पीएनकीएकएकएल का गुगतान करने के लिए कहा जाता है, एसा न होने पर पीएनकीएकएकएल उक्त अधिक अपक्षा के साथ अपक्रिया की साथ 13(4) के सभी या किसी भी एक या जससे अधिक प्रथमित की अपक्षा करना का का स्थापन के तहरा आवश्यक कर्णवाई करेगा, जिसमें वायारकाओं और गएंटरों की सभी या किसी भी एक या जससे अधिक प्रथमकूत परिस्तितीयों का कब्या करना का स्थापन के तहरा आवश्यक कर्णवाई करेगा, जिसमें वायारकाओं और गएंटरों की सभी या किसी भी एक या जससे अधिक

भ्रापक ध्यान पूरी तरह से विशीव परिसंपितियों के प्रतिपुत्तिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिपूर्ति हित प्रपर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-कारा (8) के प्रावधानी आपक स्थान पुरी तरह ने निर्माय परिस्तारिय के प्रतिन्तिकरण एवं पुनीनीया और प्रतिनुद्धित एक प्रपत्निक्या, 2002 की घारा 13 की उप-कारा (8) के प्रावधाना पर अपिकत किया जाता है, जहां आप सार्वजीयक गीलायी द्वारा प्रत्यापुत परिस्तानीयों की विश्वी के लिए स्वत्याप के प्रकाशन के लिए ती का प्रावधान कर, सार्वजीयक या गिजी ऐसे से कोटकर निर्मेश अव्यक्ति करके पीरूबी एसएक्यल द्वारा किए एसमी सार्वजी, जुटको और रख्यों के साथ का पारि की पूरी सीच का प्रावधान कर सकते हैं क्या पढ़ भी ध्यान है कि यदी पीएनमीएक्यल्यल द्वारा किए कर रामता, शुक्त और खार्चों के साथ काश्या शामि की पूरी राकि सार्वजीय का सार प्रत्यामुत परिसंग्रीतों की निर्मा के सिंह स्वाना के प्रकाशन से पहले निर्मेदा कोटेशन आमंत्रितजनके, सार्वजनिक का निजी सीचे द्वारा निविद्या सीची की जाय उपलोग सार प्रत्यामुत परिसंग्रीतों औं को द्वारान के सकदार नहीं से संपत्र हैं।

ም. सं.	ऋण खाता सं.	उधारकर्ता और सह—उधारकर्ता का नाम/पता	गारंटर का नाम/पता		मांग सूचना की दिनांक	मांग सूचना की विनांक अनुसार बकावा राशि
1.	HOUNGURI 1216337074 शास्त्रा कार्यालय मुद्रगांव	यतेन्द्रकुमार व्याध्याम, प्रियंका उपरुचाय, प्रता — मजान सं. 4.3, गती सं. 2, शीतला गरेलांगी, पुक्रमांब, हरिकाणा—122001 और कंत्रीकी जुरा, बतिया, उत्तरप्रदेश— 221701, और ए-85/14, जगद क्रोबट्डानिक्स बीटलएक एज-1, गुक्रमांव-हरियाणा—122009	ज्ञात नहीं	सी:-203, 2, टॉकर सी, जिलाइट एण्ड स्टेटस रेसिडेसीस, खसरा सं 205, 206, 207, 208, 209, 679/210 डाम-वापुकारा, विकास मिवाडी, अलवर, राजस्थान-301019	12/07/2021	क. 19,15,172.38 (रुपये उन्नीस लाख पंद्रह तुजार एक सी बहतर और उनचालीस पेसे मात्र) दिलांक 12,07,2021 तक
2.	HOUBHI 0318/506785 शास्त्रा कार्यालय भीवाडी	सुधीर कुमार कोहान, स्त्रीत, बता — मकान सं, 30, संग्रहर 3, गांधारवाणी कोलोनी, रेवाडी, करियाताच्या, हरियाणा= 123401, ध्या, संबद कन्यानीट्स, प्लंड तं, 14 संक्टर 5 प्रोय, सेन्टर फेस-2 बावल, रेवाडी, करियाबाद हरियाणा=123501	झात नहीं	812, 8, टॉवर-सी, ऑमेक्स ईरोनिया, ग्राम खजुरीबत, तहसील तिजास, जिला-अलमर, ऑमेक्स ग्रीम मेडो सिटी-2, अलबर, राजस्थान- 301001	12/07/2021	स. 18,30,095.08 (रुपये अष्टारह लाख तीस पचानवे और पांच पैसे मात्र) दिनांक 12,07,2021 तक
3.	NHL/BHI/ 1915/245425, HOU/BHI/ 0915/244187 शास्त्रा कार्यालय भीवाड़ी	संबीय बुनार शाही, शरिता वेशी प्रता = 336, पॉम अपार्टमेंट, शीवाडी वर्गसमास, क्षेत्र तिवारा, अलवर, राजस्थान-301019, और पता = एस के ट्रेडमें, ग्राम-धाटापुर, जिलारा, भीवाडी, अलवर बॉस्पास अलवर, राजस्थस्थान, 301019	ज्ञात नहीं	पलेट सं. पॉम-336, गीसच गल, कॉसमोस ग्रीम, अलावर बॉव वास रोड़ भीवाठी, तहसील-तिजारा, जिला, अलावर, राजस्थाम-30 1019	24/07/2021	रू. 26,24,715.58 (रूपये छब्बीस लाख घोबीीस हजार सात सौ पंडाह और उनसाठ पैसे मात्र) दिनांक 24.07.2021 तक
4	NHLIGRP/ 8315/213369, NHLIGRP/06 16/295443 शाखा कार्यालय ग्रीन पार्क	रुवित अश्य भारवाह, गिरीश मारवाह और विरास् भारवाह, पेप मारवाह पर्युट शं, प्रशासन, यून्तानमूर विकित्ती, धर्मशास कामार क्रिकेट – 110026 और पता – गणन मं, ठ०, तुनाव चीक, एन्डाव, लोटमूर, च्यानशास–342011, पता । घटन वार, 4933–4916, दयानं वारं, दरिया मंज विल्ली–11002	ज्ञात नहीं	पहला तल, भूतल, प्लॉट सं. ६३, तलर परिचय भाग, सुभाष चौक जीवपुर, राजस्थाम–342003	27/07/2021	श. 18,94,002.57 (रुपये अद्वारह लाख योरानबे हजार दो और सत्तावन पैसे मात्र) विनांक 27.07,2021 तक
5	HOWBHIV 1218/928837 शास्त्रा कार्यालय भीवाडी	राजेश शाजेश, सुमिवा, पतार - मारायण विद्या, पतार अकेश, धालहर, रवाड़ी, हरियाणा—123106 धाम हाणुर, शोधीला।, धारिया, जनस्ववेश—274702 विभाव विद्याल एवं ब्रोस्स, टेबनोबॉओ प्राइवेट विभिन्देख, एक 3448, विद्यो इंडस्ट्रीयन एरिया , अस्त्वर, साजरखान—301019	झात नहीं	1008.0 10, टॉवर-आई, वेलेटल ग्रीन, खरारा सं. 838/917, 839/919, 640, 641, ग्राम, निसाकपुर, भीवाडी, जिला-अस्वर, (राजस्थान), गिवाडी-305203	27/07/2021	रू. 20,07,937.90 (रुपये बीस लाख सात इजार नो सी सेंदीस और नव्ये पेसे मात्र) दिनांक 12.07.2021 तक
6	HOWBHI 1218/616274 शास्त्रा कार्यालय भीवाडी	रिवेन्द्र कुमार शर्मा, रिकी शर्मा, बता – डब्ल्यू केड 700, प्रथम ताल, पालम ग्राम, किय मंदिर के शामने, साठल वेस्ट दिल्ली-110045 केवर्ड के 200, पूलग ताल, टीसीएल प्याका एलएससी मार्वेट प्यांट सं 09 संबद्धन के द्वारका, गई दिल्ली-110078	झात नहीं	1008.0 10.0, टॉवर-एम, वेर्डिटल ग्रीन, फरसरा मं, 838/917, 839/918, 840, 841, ग्राम, मिलागपुर, भीवाडी, जिला-अस्तर, (राजस्थान), मिवाडी-305203	12/07/2021	रू. 20, 12,036.62 (रुपये बीस लाग्र बारह हजार छतीस और बासठ पैसे गांत्र) दिनांक 12.07.2021 तक
7	ношвни 0419/678179 शास्ता कार्यालय भीवाडी	नीतिन नीतिन, सक्वीर सिंह, चता – 25, गली शं. 2, गहार सिंह वर्केशोगी, सेक्टर-८, शल्लभगद, क्लीकाबाद, हरिवाणा– 21004 बकान शं. 3373, भूतल, ब्लॉफ ईंट, गली शं. 74, मोलास्बंद एक्लटेंबन, बदसपुर, दिल्ली–110044	झात नहीं	5, जीएफ, एल9, लवाना डोम्स (डॉल्ड), खरापासं 87/833, एनएम्ड जावनीस हॉटल क्रिवीजना के पास, धाम जोतिला संगा, तहसील नीमराण, धाम, कोतिला संगा, अववर, राजस्थान- 301001	12/07/2021	स. 10,20,674.08 (रुपये दस लाख बीस हजार छह सी चीहत्तर और आठ पैसे मात्र) विमांक 12,07,2021 तक
ð	HOU/NOV 9715/231328 शास्त्रा कार्यालय नोएडा	नरेश कुमार, हेम लता, पता : एक-410, महिपालपुर आम, दिल्ली- 110037 इकड़ सं 19ए-19पी, मृतल, सी एवः वीकेनलन, इकड कुप, संपटर-ची प्रकिट-5, दिल्ली- 110070	ज्ञात नहीं	सी-906, ४, अशोका अपार्टमेट कॉरामॉस ग्रीन (फेज-3), बाम साईवापुर, और खान पुर तहसील किजाच, निवाकी, जिला अलवर, किम और, निवाकी, राजस्थान- 301019	13/07/2021	ह. 30, 18,464.07 (रुपये तीस लाख अहास हजार चार सी चीसट औ सात पैसे मान) दिनोक 13.07.2021 तक
9	HOU/BH/ 9617/404960 शासा कार्यालय भीवाडी	जीतन्त्र सोनी, शांतियेवी; बता : चेयल कॉलोनी, प्रधान स्कूल के पास, इतन महस्तरी, स्थाडी, हरियामा=123108 बी-1245 और 48, रिको इंतरट्रीयत एरिया, पाटल, सीकाडी, शजस्वाम-201019	झात नहीं	मलेट सं ६१८, टीएफ, ब्लॉक-यू, तिरेक्षन हिल व्यू गॉर्डन, ग्राम-थाझ भिवाबी, ताल्सील-विज्ञाच, भिवाबी अलगर,राजस्थान-301019	12/07/2021	क. 13,77,012.56 (रुप्पी तेरह लाख संतहतर हजार बारह और छप्पन पॅरो गात्र) दिनांक 12.07.2021 तेक
10	ноилтр 9319/667500 शाखा पीतमपुरा	स्यानेन्द्र निश्वा, विति निश्वा, बाता – प्रवान सं 5,924, प्रवंग तल, शेवटर-5 मोहन पीर्माप्त परिकार रकुल के पास, बर्चुक्स, पाजिबाबाद, उत्तरप्रदेश-201012-28, एमआईजी वरदा 5, करना, कानपुर नगर, कानपुर, उ.प. –200027 पीरपायर तुप सर्वितंत्रस, वृद्धिया, प्रावृद्धेद शिमिटेड इक्कर्ड सं 4,7, एक और 4र, 24 वो तल, उप्पत्ना हर्लाकाएम 6, पिरली-110025	झात नहीं	हैं1103, 11, टॉकर हैं जिंकसार-टेरा केशल, बरशरा शं. 578, 587 से 590, व्याम मसीत, जिला अलवर, राजस्थान- 301019	13/07/2021	स. 24,41,799.10 (रम्पये चौदीस लाख इकतालीस हजार सात सौ नियानवे और देस पेते मात्र) दिनांक 13.07.2021 तक
11	HOUBHY 1017/444290 शास्त्रा कार्यालय भीवाकी	चीडान प्रवीष की, सहा प्रवीण चीडान, पता – एम 02 प्रांत, हिल व्यू चीडेंग, तिरेशान, अस्तर, रुज्यन्थान-301019 एन 02 मुत्तत, हिल व्यै गाँगेंग, तिरेहान, अस्त्रवर, गांवस्थान-301019 आरणस्प कंप्ट्रश्चन प्राइतेट निषिटेख, एवंट सं. 1 प्रथम तल, संबंदर भी पांकट-1, लांकर शांपिय कोम्बार्वस्थ, बसंत कुंख, दिश्सी- 110070	ज्ञात नहीं	फलेट सं. 12ए, टॉवर सं. आर, तिरेहरन हिंता यू गॉर्टन, बाम खाडा फिराडी, तहसील-निजारा, मिवाडी, अलबर, राजस्थान-301018	12/07/2021	रू. 25,67,200.80 (रुपये पञ्चीस लाख सङ्ग्सट हज़र दो सी और अरूसी पैसे मात्र) दिनांक 12,07,2021 तक
12	HOUBH 9519496305 शास्त्रा कार्यालय भीवाड़ी	अजीत करनानिया और नीट् करमानिया बता: जर्नेट सं 210 टॉव सं एम 03, आशियाना, ज्यान अस्ववर बॉव्यास, नीठ मीकाती त्वसील निजार जिल्ल अस्ववर, सजस्वान-501019 बता - ब्रस्सामिनका पितासी विकृत है नेट तलवर प्रमाद निक्र कार्रियों विकृत है नेट तलवर प्रमाद निक्र कॉलीनी प्रणाज शालम के पारा, अशियाना क्रमीज बीकाड़ी, अस्वबर, सजस्वान- 301019	झात नहीं	ए–303, 3, ग्रीवर ए, ग्रेडकुशर (शोल्ड), संबदर 56, तहसीत तिजाश जिला अलवर, मिवडडी, राजस्थान–इंडिया– 301019	12/07/2021	क. 20,30,820.70 (रूपये बीस लाख तीस हजार आठ सौ बीस और सत्तर पैसे मात्र) दिनांक 12.07.2021 तक

ए 62 1. 6टा तल. ए ब्लॉफ. पेस

ਚਰਗ**ਗਂਤ-248001**

गोल्फ एस्टेट, खसरा सं. 146 केए और अन्य तहसील — सदर, देहरादुन,

₹. 32.66.446.82

(रुपर्य बतीस लाख विधासक हजार चार सौ

क्रियालीस और बवासं

पैसे भाग । दिनांक

13,07,2021 市事

13/07/2021

प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग काइनेंस लिमिटेर

HOU/GRP/ 0319/570540 थला – मुकान् सं. 159, जनता डोडीए क्लेट बदरप्

वट सॉक्ट ब्रिक्स प्राइवेट मिमिटेड,

सामग्र दिल्ली-110044

दिनांक : दिल्ली, दिनांक : 17.08.2021

शास्त्रा

ग्रीन पॉर्क

(a) pnb Housing ence Limited Ghar Ki Baat पंजीकृत कार्यालयः 9वीं तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001 शासा कार्यालय ३६, मृतल, ब्लॉक, ईस्ट मेट्रो स्टेशन, एव नं, बी-1, जनकपुरी, दिल्ली-110058

न्रण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 बवती. 2002 अब तक संशोधित के नियम 3(1) के साथ पवित. प्याय III की बाच 13(2) के तहत सूचना

हम, प्रेष्ट्नमी हाकसिम फाइनेस लिमिटेड (कहाँ आमें "पीएज्मीएसएफएस" कहा गया है) ने विशोध आसितमों के प्रतिमृतिकरण एव पूर्वनिर्मण और प्रतिमृति हित प्रकृति अधिनितम, 2002 की चारा 13(2) के जांच मांग सूचना जारी की थी। चवच मांग सूचना आप सभी अधीरलंडिंड कर्जदारों/सार-कर्जदार/जमानंतियों को हमारे प्राधिकृत अधिकारी के मान्यम से जारी की गई थी क्योंकि किसतों/ब्याज का मुगदान नहीं होने के कारण मारतीय रिजर्ज केंद्र /नेस्ताल हाकसिम बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार आपका खाता अन्तर्क आसित प्रतीकृत किया गया था। इसकी विषय-वस्तु मूलकरा न्यान आदि के मुगतान में आपके द्वारा की गई चूके हैं।

साथ हैं, उपलब्ध करएणों से हम मानते हैं कि आप मांग सूचना रंतने बच रहे हैं और इसलिए मान सूचना का प्रकारन किया जा रहा है जो उका अधिनियम बी पारा 13(2) के तहफ मी अपेक्षित है। एतद्द्वारा आपके इस मांग सूचना प्रकारन की तारीख से 60 दिनों की अविषे के अंदर उपरोक्त राशि को अधान ब्याज और प्रमारों सहित पीएनबीएवएकएल को मुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा पीएनबीएवएकएल कर्जदारों और जनानविज्ञों की प्रत्यामूत परिसर्वादिकों का कब्जा लेने सहित किसी एक या अभिक प्रत्यामूत परिसर्वादिकों के विरुद्ध उका अधिनियम की पारा 13(4) के सभी या किसी प्रकारन के लाइन आवश्यक वर्शनार्थ कारेगा ।

विदीय अस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गियाँण और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 वीं यास 13 की उप-यास(ह) के प्रवयान के तहत आपक प्यान इस जोर पी आकृष्ट किया जाता है कि अधिनियम की प्रावधान के अनुसार प्रत्याकृत परिसंपरित(ओ) की सार्कजनिक गीलामी, पब्लिक से कोटेशन निविदा आगत्रण का निजी द्वीटी द्वारा बिकी के लिए केवल सुधना प्रकाशन की ठाएँख एक पीएनबीएबएफएल द्वारा वहन सभी लागती, प्रवास और व्यव सहित समस्त बकावा राशि को जमा/भुगतान कर सकते हैं।

साथ ही आप उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत उपरांका प्रत्यामुठ परिसर्पालियों का विक्री, पट्टे या अन्य किसी तरीके से हस्तातरण करने से

ऋण खादा	कर्जदार और सह-कर्जदार	मॉग सूचना	मींग सूचना की तारीख	
संख्या/संख्याएँ	का नाम/पता	की तारीख	को बकाया राशि	
HOU/JAN/1115/ 253040 : बी.ओ. जनकपुरी	सकीय पेबेसील बाप, बाघ नीलिया सकीय, पठा – ही 804 प्लॉट न 18, रंजीठ विदार 2, सेक्टर 2 हारिका, दिल्ली–110075, पठा – ए 243, जोखला इंडॉस्ट्रकल एरिया, फेज 1, दिल्ली–110020		रु. 14,61,408.67 दि. 13 जुलाई, 2021 को	

जमानदी(ओ) का नाम और पदा - लाग नहीं कंपक संपरित्र(यी) 102, 1, टाईप के, अनंत सृष्टि, गट न 387 और 404 गाँव, जाम्मूल ता. गावल, पुणे, गातराष्ट्र-443302

दिनांक 17.08.2021 स्थान पुणे/दिल्ली (प्राधिकृत अधिकारी) क्षेत्र पीएनबी हाळसिंग फाइनेंस लिमिटेड

		न ऐंद्र रिकन्द्रकान टॉफ फायनाकियल टॉसेट्स ! इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 (कानून) की धारा 13(2) :		-
अनु. क्र.	कर्जदाता (ओ) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति का विवरण (बी)	एन.पी.ए. की गारीख (सी)	बकाचा राशि (क.) (बी)
1.	कर्ज काता कं. HLLADMT00472203 1. इरकिन्दर सिंह (जुनेवा फायनांस कं. के प्रवंधित भागीदार) 2. रुमीत कौर 3. रमनदीय सिंह 4. इरबनी जुनेवा 5. दकिन्दर कौर 6. जुनेवा फायनांस कं. के भागीदार द्वारा	ज्ञींच मं. एकएक (आर 1) पहली मंजिल पर और ज़ॉप मं. टैरेस (आर 1) टैरेस मंजिल पर, टीजीआई मॉल मे टीजीआई तिटी कुंटली, सोनीचत, गींव कुंटली के आसपास स्थित, नांगल क्लॉन, अटरना, पटला, रसोई, बड़ाजालमा, जक्जेली, तहसीस और जिला सोनीचत -131001, हरियाणा.	26.05.2021	क. 1,40,62,947.56 (रूपचे एक करोड़ वालीस लाख बासठ हजार वी भी सेंतालीस और उप्पन चैसे गाव) 26.05.2021
2.	कर्ज खाता के, HLLANOI00299515 1. बीधुनटी मोटर्स प्रा. लि. 2. राकेस तलबार 3. कार्तिक तलबार 4. नेवी जलबार 5. राकेस तलबार (अबिभक्त) कर्ती द्वारा		14.06.2021	रू. 4,42,47,457.50/- (रूपये चार करोड़ बयालीस लाख सँतालीस हजार चार सी सत्तावन और पचाम पैसे मात्र) 14.06.2021
3.	कर्न खाता कं, HLLADMT00318649 1. अविनाज कुमार पुंजानि 2. मुकेश पुंजानि 3. सरोज बाला पुंजानि 4. पुंजानि सिटस् (मा) स्थि.	संपत्ति / प्लॉट वं. एस-10, क्लॉक-एस, खसरा वं. 301/1 के बाहर, अनय इनक्लेब, गॉव - किहाड़, वई दिल्ली -110018 दिल्ली.	25.05.2021	क. 3,31,08,949.17/- (रूपचे तीन करोड़ इक्कीस लाख आठ हजार नौ सी उनचास और सजद ऐसे मात्र) 25.05.2021
4.	कर्ने जाता के. HLLALAJ00398978 1. विनेश ग्राव्हा 2. विजय कावड़ा 3. रिमा जावड़ा	संपूर्ण पडली बंजिल और संपूर्ण टेरेस का आधा सामने का हिस्सा और फ्लॉट रं. 25 के दुसरी मंणिल पर, इम्म शेल को-ऑपरेटिव डार्जासंग सांसाबटी लिमिटंड, आराध्या ळॉलोगी, संक्टर-13, आर.के. पुरम पई दिल्ली-110066	23.07.2021	क. 2,15,33,158.72/- (फ.पचे वो क्षरोड़ पंद्रत लाख तैंडतीस क्षमार एक मी अङ्कावन और ब्रह्मतर पैसे मात्र) 23.07.2021

कि करर लिखे नाम बाला क्यार लेने बला(ले) ने ऋण काते के बिगीय अनुसासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा करनी द्वारा अपनी आग बिजनेस पर्यों में रखे जाने वाले खातों के अनसार प्रत्येक उधार पानेवाले (ली) के नाम के आंग स्तंभ ही में विनिर्दिश धनरात्रि बकाया बनी रहे हैं ।

उदार लेने वाले(लो) की और से ऋष धनराशि का गुनर्धुगतान में लगातार जुक हुंने के कारण उधार लेनेजले(लो) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापवंडों के भीतर निम्पादनेतर परिश्रंपशियों (स्तंभ सी में तारीस के अनुसार) के रूप में वर्गीकृत किया गया है । परिणाम स्वरूप प्रत्येक तथार संनेवाले को अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को बीचनत रखते हुए कपनी एटवहारा उपर लिखे सन वाले उधार लेने वाले(ली) का आहवन करती है कि, वे इस मुखना के प्रकाशित होने के दिन से 80 दिन के भीतर अध्तन ज्याज, लागते, तथा शुस्को सहित ऊपर स्तंब डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का मुगतान करके कंपनी के प्रति वनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायिखोंका निर्माहन करे, ऐसा न करने पर कंपनी कपर के स्तंभ नी में उिल्लिखित बंधक रखी गई संपति का अधिप्रदीत करने के लिए कंपनी पत्र होगी ।

कृपण ब्यान दें कि सरफेसी कारून की बारा 13 की उप-धारा (8) के प्राक्थानों के अनुसार, "कर्जधार सार्धणीनक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्धणीनक निविदा या निजी समझीते द्वारा मुरक्षित आदितयों की विक्री के लिए भूवना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्मोर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्जी, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण दकामा देव राशि भदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरांक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधी के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोजन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोजन करने के लिए पात नहीं है सकता"

सरफेबी अधिनियमन की उपचारा 13(2) के प्रकथन के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिकी, पड़े के माध्यप से अन्यक्षा नोटिस में उदिलखित अपनी सुरक्षित संपंधियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठवक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित है ।

कृते इंडियानुस्य कर्मशियल क्रेडिट लिमिटेड प्राधिकत अधिकारी स्थान: सोनीयत / नई दिल्ली

PTC India Financial Services Limited



जाएगी।

NOTICE OF 15TH ANNUAL GENERAL MEETING OF PTC INDIA FINANCIAL SERVICES LIMITED THROUGH VIDEO-CONFERENCING

Notice is hereby given that, the 15th Annual General Meeting ("AGM") of the members of PTC India Financial Services Limited ("PFS" or "the Company") will be held on Friday, 24th September, 2021 at 11:00 a.m. through video conference ("VC"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") and rules notified thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with read with general circulars nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April 2020, 13th April 2020 and 5th May 2020 and clarification circular no 02/2021 dated 13th January, 2021, respectively and other applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and SEBI Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/70 dated May 12, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 (collectively referred to as "Relevant Circulars"), to transact the businesses as set out in the Notice of AGM.

The members can attend and participate in the AGM through VC as the AGM will be held without the physical presence of the Members at a common venue. Members participating through VC shall be counted for reckoning the quorum under section 103 of the Act.

In compliance with MCA & SEBI circular (s), the electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year ended 31st March, 2021 of the Company will be sent to all the members whose e-mail address is registered with the Company/RTA/ Depository Participants as on 27th August, 2021. Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice of the 15th AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide above referred Relevant Circulars. The Notice and the Annual Report will also be available on the website of the Company www.ptcfinancial.com and on the website(s) of the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, where the Company's shares are listed.

The VC facility and the facility of casting the votes by the members ("e-voting") will be provided by Kfin Technologies Private Limited ("Kfintech"), Registrar & Share Transfer Agent ("RTA") of the Company and the detailed procedure for the same shall be provided in the Notice of the AGM. The Notice of the AGM will also be made available on the website of Kfintech at https://evoting.kfintech.com. The remote e-voting period commences on 21st September, 2021 (09:00 A.M.) and will end on 23rd September, 2021 (05:00 P.M.). Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date of 17th September, 2021, may cast their vote by remote e-voting or by e-voting at the time of AGM.

Members holding shares in physical form who have not registered their e-mail addresses with the Company are requested to register the same by following the procedure specified in the Notice, i.e. either by registering through the link: https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx; or by writing to KFin Technologies Private Limited, Company's RTA, at einward.ris@kfintech.com along with the following documents:

- a) scanned copy of signed request letter mentioning their name and address;
- b) scanned copy of the share certificate (front and back);
- self-attested scanned copy of PAN card; and
- self-attested scanned copy of any document (viz. Aadhar card, Driving License, Passport) in support of their

Members holding shares in dematerialized form are requested to register/ update their e-mail addresses with their relevant DPs.

For the limited purpose of receiving the Notice and Integrated Report for the financial year 2020-2021, they may also temporarily register their e-mail addresses by following the procedure specified in the Notice i.e. by registering through the link: https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting and through e-voting during the AGM.

The Notice of AGM and Annual Report for financial year 2020-21 will be sent to members in accordance with the applicable laws on their registered email addresses in due course.

For PTC India Financial Services Ltd.

(Vishal Goyal)

स्थानः नई दिल्ली

Company Secretary

Date: 17th August, 2021 Place: New Delhi

(CIN: L65999DL2006PLC153373) Registered Office: 7th Floor, Telephone Exchange Building, 8 Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066 Board: +91 11 26737300 / 26737400 Fax: 26737373 / 26737374. Website: www. ptcfinancial.com, E-mail: info@ptcfinancial.com



U. P. STATE SUGAR CORPORATION LTD.
VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW-226010
Ph. No. 0522-2307826/28 Fax: 0522-2307895

e-TENDER NOTICE

e-Tenders are invited from experience bonafide traders having experience in ugar trading from 17.08.2021, 6.55 PM for sale of-

2500 MT of sugar of season 2019-20 from Mohiuddinpur unit, distt. Meeru stored in Bamanheri Godown distt. Muzaffernagar "as is where is" basis as per stipulated norms. The last date of e-bid submission is 03.09.2021 upto 6.55 pm and opening on 04.09.2021 on 12.00 noon. Brown Sugar and Rori of Mohiuddinpur, Pipraich and Munderwa units.

Tender documents can be downloaded from e-tender porta ttp://etender.up.nic.in or Corporation website www.upsugcorp.com, Ten

of Rs 1000/-+18% GST= Rs 1,180/- and earnest money in the form of DD/ RTGS of Rs. 15,00,000/- lac. for category A and Rs. 2,00,000/- lac. for category B, in vour of U.P. State Sugar Corporation Limited payable at Lucknow. Tenders without earnest money will not be accepted. The undersigned erves the right to cancel one or all the tenders without assigning any reason

> परिशिष्ठ IV देखें नियम 8(1) कल्स सचना (अन्तन संपत्ति हेत)

तब कि.

इंडियाबुल्स हार्गासंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिनत वर्षकारी होने के नाते अधोजनाहरी ने सिक्सोरिटाइजेशन शंड रिकन्टशन और फायनॉशियल असेट्स एंड एफोर्समेन्ट ऑफ सिक्नोरीटी इंटरेस्ट एस्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ . सिक्योरीटी इंटरेस्ट (इन्फोर्सनेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पहते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार दीचक देवगर को 26.08.2019 की सूनना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं.HHLNOD00364916 की राशि रू.६,11,66,189/-(रुपए से करोड़ न्यारह लाख हिवासठ हजार एक सौ नवासी मात्र) और 26.08.2019 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त स्वना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आजाहन करते हुए अभियाचना सुचना जारी की थी। धनतीश नुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एततद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को मुक्ता ये जाती है कि, अथोहस्ताक्षरी ने उक्त करपूर की धारा 13 की उप धारा 4 के साथ उक्त कानुर के नियम 8 के तात सिक्योरीटी ईट्रेस्ट (एक्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के तात प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 13.08.2021 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्व कर लिया है। विशेषतः कर्जदरों और सामान्यतः जनता को एततद्वरा संस्पति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सीदा राशी रू.6,11,66,189/- (रुपए से करोड़ स्थारह लाख क्रिवासठ इजार एक भी नवासी मात्र) 26.08.2019 के अनुसार और उस पर न्याज के साथ इंडियाबुल्स हातसिंग फायनान्स लिमिटेट के आधीन होग.

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की घारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपतियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण बुनीट/अपार्टमेंट नं.-2302,(टाइप पेंट हाउस) जिसका टेंटेटिव सुपर एरिया 10000 स्के.फीट जो 1929.36 स्के.मी. के बराबर तेईसवीं मंजिल पर, टॉवर-सी, प्रोवेन्स एस्टेट से पहचाने जने वाले प्रोजेक्ट में, सेक्टर 2 में स्थित, गींव न्वाल पहाड़ी, गुरुग्राम - 122001, हरियाणा साथ ही तीन कवर्ड कार पार्किंग जगह के साम निम्ननुसार परिबद्ध है:

: टाइटल डीड के अनुसार पश्चिम: टाइटल डीड के अनुसार :टाइटल डीड के अनुसार दक्षिण: टाइटल डीड के अनुसार वत्तर

Rate: -13.08.2021 प्राधिकृत अधिकारी स्थान :गुरुग्राम इंडियाबुल्स हार्डासंग फायनान्स लिमिटेड

W aurelia *WISHFUI Delleven टीसीएनएस क्लोदिंग कंपनी लिमिटेड

सीआईएन: L99999DL1997PLC090978 पंजीकृत कार्यालयः ११८. उद्भ्यू हाउस, नीलगगन टॉवर, मंडी रोड. ्यूलानपुर, महरीली, नई विख्ली-110030 कॉर्पॉरेट कार्यालयः 119 एउ 127. उच्चम् इच्चरा, नीलगरन टॉकर, मंदी संद, शुल्तानपुर, महरीली, नई विख्ली-110030

फोन: 011-42193193 ई--फेल: investors@tonsciothing.com वे**जसाहट:** www.wfonwoman.com 24वीं वार्षिक आग बैठक, बुक क्लोजर एवं ई-वोटिंग जानकारी

की भूचना से संबंधित जानकारी

रादरवगण कृपक नोट करें कि कवित एजीएन के आयोजन की सूचना में निर्मारित व्यवसाय व निष्पादन के लिए टीसीएनएस बलोदिंग के लिमितंड ("कम्पनी") के सदरवों की 24वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शुक्रवार, 17 सितम्बर, 2021 को बीप, 2.30 बजे (आईएसटी) में विडियो कोंक्स्तिम ("पीसी")/अन्य ऑदियो किजुबल माध्यमों ("ऑएबीएन") के द्वारा आयोजित की

कम्पनी अधिनियम, 2013 में लागू प्रावसानों और उसके अधीन बनाए वए निवमों ("अधिनियम") भारतीय प्रतिभूति तथा विनिधय केंद्र (सूचीयन वस्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनिवस 2015 ("एलओडीआर") के साथ पवित कॉपरिट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") हारा जारी किये गर एमसीए परिपन्न सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, एमसीए परिपन सं. 17/2020 दिनांक 1 अप्रैल, 2020, एमसीए परिपन्न सं. 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, एमसीए परिपन्न सं. 01/202 13 जनवरी, 2021 एवं अन्य संगत परिपन्न, भारतीय प्रतिगृति तथा विनिमय बोर्ड ह्वारा जारी किये गये गरियत सेकी / एवओ / सीएकडी / सीएमडी / सीआईआर / यो / 2020 / 79 दिनांक 1 मई, 2020 एवं परियत सेवी / एवओ / सीएफडी / सीएमडी 2 / सीआईआर / यो / 2021 / 1 दिनांक 15 जनवरी, 2021 (संयुक्त रूप से "लाग वीली/ओएवीएम के माध्यम से आयोजिल की जा रही है। "लागू परिपत्र") के अनुपालन में एजीए

सूचना एवं वार्षिक वियोर्ट का डिस्पैचा लाबू परिपन्नों के संदर्भ में, वार्षिक रिपोर्ट और एजीएन श्रायांजन की सूबना चन सदस्यों को कंग्रल इलेक्ट्रोनिक माध्यम से नेजी जा रही है जिनके ई-आवाज का पूर्वा पर पर्य एक अपने संबंधित विर्धारिक्टरी प्रतिभागी(मी) कप्पणी के प्रतिनदृश्य एक ट्रांसकर एजेंट ("आरटीए अर्थात केफिन टेक्नोलीजीज प्राहवेट लिनिटेड ("केफिन टेक) के पाश पंजीकृत हैं।

वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सचना के साथ इं-वोटिंग दिशानिदेश कम्पनी के रजिस्टार एंड mill / shiften has all harman bittee //s ी कमानी की वेबसाइट https://wforwoman.com/content/report/annual-report-2020 21 तथा रदींक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात बीएसई सिमिटेड एवं नेशनल रदींक एक्सचेंज ऑप इंडिया लिमिटेड क्रमक: www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे। ई-मेल पता पंजीकृत/अपरेट कराने की प्रक्रियाः जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पत पंजीकत नहीं कराया है. वे लिंक https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilered mobileemailreg.aspx पर क्लिक करके तथा कग्पनी का नाम अर्वात टीसीएनएस क्लोदिंग व जिमिटेड सजेक्ट कर अपेक्षित विवरण भरकर कम्पनी के आरटीए के पास अपना ई—नेल पता ए मोबाइल नम्बर अस्थाई रूप से अपदेट करा सकते हैं । विकल्पतः सदरबगण इं-मेल पता. मोबाइल र्षन की रथ-सत्यायित प्रति एवं एलेक्ट्रॉनिक फोलियों की बलाइट मारटर कॉपी / मीतिक रोय कें लिए शेयर प्रभाणपत्र उपलब्त कराते हुए हरताक्षरित अनुतेख पत्र की रकंन कॉपी के साथ – मेल umesh.pandey@kfintech.com वा einward.ris@kfintech.com वर अनुरोप

बलेक्टॉनिक बोटिंग एवं रुजीएम में भागीटाणै: कम्पनी अपने गटरयों को रुजीएम से पूर्व रिमां वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई- वोटिंग के माध्यम से पारित किये जाने वाले प्रस्तावों पर ர்ச ச்ச் கி அண்ட பாருவ கள சரி ச் செய் மசனாய செய்ச கீடர்டுள் (மனிய க் சிர इं-वोटिंग के नेष्ट्यम से अपना वोट वे सकते हैं। रिमोट इं-वोटिंग सुविधा गंगलवार, 14 सिवाग्बर 2021 को प्रात: 9.00 बजे (आईएसटी) धारंच होगी और बृहर्क्यतिवार: 16 सितम्बर, 202 को साथ 5.00 बजे (आईएसटी) सनाच होगी। उसके बाद रिनोट है—बोटिंग मैड्यूल वॉटिंग व लिए हटा दिया जाएगा और बाद में एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए विमंदरियलाइ व्य मोद, फिजिकल मोद्र में शेयर धारण करने वाले सदरमां और जिन सदरमां अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, जनके लिए रिमोट ई-बोटिंग एवं एवीएम के दीवा -वंटिंग के दिशानिर्देश सदस्यों को भेजी जानी बाली सूबना में दिये जाएंगे

रादरघों से अनुरोध है कि वे वीशी / अंहबीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने के संबंध दिशानिदेशों के लिए एजीएम की सूचना का अवलोकन करें।

. ऐरो शहरयगण जिलका नाम कट—ऑफ लिथि अर्थात शुक्रवार, 10 शिकाचर, 2021 को शहरयों व रजिस्टर / लामाओं रवामियों में शामिल होगा, केवल वे डी एजीएम से पूर्व रिमोट ई-सोटिंग औ के दौरान ई-वोटिंग पुबिधा का लाम उता सकेंगे। कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की शुवन भेजने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कर-ऑफ तिथि को रोयर घारण करता है, व f-मेल umesh.pandev@kfintech.com या einward.ris@kfintech.com पर अन्यो भेजकर "युजर आईडी" एवं "पारावर्ड" प्राप्त कर राकता है । "युजर आईडी" एवं "पारावर्ड" प्राप् तूत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है तथा हते चपतांच्या वर्णित कन्यनी क वैद्यसाइट तथा क्रेफिन टेक की वैदशाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। यदि सदस्य 🗐 वोटिंग व न टेक के शाब्द पहले से पंजीकृत है तो वह रिपोट ई-वोटिन/एजीएम के दीश इं-वोटिंग के द्वारा अपना बोट देने के लिए अपने वर्तमान "मूजर आईडी" एवं "पासवर्द" क इस्तेमाल कर राकता है। रिमोट ई-बोटिंग / एजीएम के तीरान ई-बोटिंग के लिए क्रेजेंडियरूर सदस्यों द्वासरा बीसी / ओएबीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने के लिए करने हैं।

'सूचीबद्ध कपनियों द्वाल प्रदान की गई ई-बोटिंग सुविधा पर सेबी गरिपत्र संबी / एकओ / सीएकडी / सीएमडी / सीआईआए / पी / 2020 / 242 दिनांग व दिसम्बर 2020 वं अनुसरण में वोटिंग प्रक्रिया की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए एडेस्य से अपने डिमेर एकाउंट / क्रियोजिटरीज / क्रियोजिटरी प्रतिभागी ("ठीपा") भी वेबसाइट के माध्यम से सिंगठ लॉगइन क्रेबेशियल्स के माध्यम से सभी व्यक्तिगत विगेट खालाधारको के लिए ई. केटिंग प्रक्रिय उपलब्ध कराई गई है । इसके लिए लिंक निम्नानुसार है.

डिपॉजिटरी	पहले में पंजीकृत सदस्यमण	बिना पंजीकृत सदस्यणण	पहली बार यूजर्स के लिए वेनसाइट का सीधे एक्सेस
एनएस⊄एल	यूजरएल https://eservices.nsdl. com पर जाए और 'आईवीईएएस रीक्शन के अंतर्गत 'बेनिफिशियल जीनर्ग' पर क्लिक करें।	पंजीकरण के लिए लिक https://eservices.nsdl. com/Secure/Web/ IdeasDirectReg.jsp पर विसक करें	्यूआरएल https://www.evoting- nsdl.com/ पर जाएँ
शीळीएलएल	्यूधारएल https://web.odsindia. com/myeasi/home/login व्य www.cdslindia.com पर जाए और "न्यू विस्टम माईइजी" पर विस्था करें	पंजीकरण के लिए लिंक https://web.cdsindia. com/myeasi/ Registration/ EasiRegistration पर क्लिक करें	यूआरएस www.cdslindia.com पर आएं।

सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना बोट दे दिया है, ये भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन वे एजीएन के वीरान दोवास वोट देने के लिए योग्य नहीं होंगे अर्थी एजीएम की मूबना सदस्यों को लाबू नियमों के अनुसरण में उचित समय पर उनके

पंजीकृत ई-मेल पर्ते पर मेजी आएगी। टीसीएनएस क्लोदिय कं. लिमिटेड के बोर्ड के आदेशानुसार

पीवृष अशीजा

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी दिनांकः 18 अगस्त, 2021 सदरयंता सं. ए२१३२८